



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 702) पटना, बुधवार, 27 अगस्त 2014

सं0 क0/बैठक-05/2004-491
जल संसाधन विभाग
कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय

संकल्प
25 अगस्त 2014

विषय:- कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन ।
राज्य में चल रहे केन्द्र प्रायोजित कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुश्रवण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-20 दिनांक 12.01.2005 द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति गठित है । भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जारी दिशा-निर्देश एवं वर्तमान परिपेक्ष्य के आलोक में उक्त राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को निम्न प्रकार पुनर्गठित किया जाता है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | — अध्यक्ष |
| 2. अभियंता प्रमुख प्रभारी कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 3. मुख्य अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, पटना | — सदस्य |
| 4. निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 5. निदेशक, आई.सी.ए.आर. क्षेत्रीय इकाई, पटना | — सदस्य |
| 6. कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 7. निदेशक, वाल्मी, पटना | — सदस्य |
| 8. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 9. चारों कमाण्ड क्षेत्र से एक-एक कृषक प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 10. वरीय संयुक्त आयुक्त, सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम., जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार | — सदस्य |
| 11. क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, सोन कांडा, पटना | — सदस्य |
| 12. क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, गण्डक कांडा, मुजफ्फरपुर | — सदस्य सचिव |
| 13. प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, कोशी कांडा, सहरसा | — सदस्य |
| 14. प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, के0बी0सी0 कांडा, भागलपुर | — सदस्य |
| 15. अध्यक्ष, जिला परिषद, पटना | — सदस्य |

उक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श करेगी:—

- (क) कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों के कार्यों का निर्धारण एवं उन्हें समेकित एवं समग्र (Holistic) रूप से लागू करने हेतु उचित सुझाव देना ।
- (ख) कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं लक्ष्य की प्रति हेतु इसके Performance में सुधार के लिए सुझाव देना ।
- (ग) राज्य स्तर पर किए जाने वाले मूल्यांकन अध्ययन (Evaluation Studies) का निर्धारण ।
- (घ) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग एवं भारत सरकार को भेजे जानेवाले योजना प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं अनुशंसा करना ।

2. इस समिति की बैठक प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बार यथा खरीफ एवं रब्बी मौसम (क्रमशः जून एवं अक्टूबर माह में) में होगी ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय । यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विपिन बिहारी मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 702-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>